

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 46] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1969/फाल्गुन 21, 1890

No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1969/PHALGUNA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March 1969

G.S.R. 811.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts with effect from 7th March 1969 to 18th March, 1969, Shri Pratap Kumar Roy s/o Shri Mriganka Kumar Roy, General Manager, The Times of India, Dr. D Navroji Road, Bombay-1, from the operation of the provisions of Clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 6 of the Passports Act, 1967.

[No. VI/405/1/19/69]

V. H. COELHO, Secy.

